

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

पत्रांक.... 1785 (अभ०)

सिवान-1,

दिनांक 26/9/25

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

सेवा में,
नोडल पदाधिकारी (3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार पटना।

विषय :- योजना शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 एम0आर0/3054 मद में राशि की अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक योजना शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 एम0आर0/3054 मद में राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में भर कर अग्रतर कारवाई हेतु समर्पित किया जा रहा


अनुरोध है कि अधियाचित राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0- 1.विहित प्रपत्र में मॉग विवरणी।

2.Bump Integrator Equipment Report की प्रति।

3.एकरारनामा की छाया प्रति।

विश्वासभाजन


25/9/25

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल, सिवान-1

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (I) below Rule-150

Form of Utilisation Certificate upto the month of Sep-2025

NEW MAINTAINANCE POLICY 2018 (MR3054) MAINTAINANCE**PIU- RWD Works Division Siwan-1**

PIU- RWD Works Division Siwan-1				
Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with Amount (in Lakh Rs.)	Amount Received (in Lakh Rs.)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under New Maintainance Policy (MR-3054) Maintenance	Previous Allotment	12163.19142	Certified that out of Rs.12809.37944 Lac received during the year 2025-26 upto in favour of Executive Engineer , R.W.D Bihar Siwan-1 a sum of Rs. 12717.08098 lac. has been utilized for the purpose of New Maintainance Policy (MR-3054) Maintenance Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 92.29846 lac. remaining unutilized at the end of the period under report.
		(Decrease) Lt-33,Dt-10.05.2025	533.51723	
		Lt-45,Dt-27.05.2025	23.62485	
		Lt-47,Dt-09.06.2025	13.83987	
		Lt-59,Dt-16.07.2025	17.44607	
		Lt.81 Dt-19.09.25	57.76	
Total :			12809.37944	

2. Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was sanctioned have been duly fulfilled/ are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised :-

- Works have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/ Superintending Engineer.
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the Assistant Engineer / Executive Engineer.
- All other codal formalities have been observed.

Physical Progress Achieved:-

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

[Signature]
25/9/25
D.A.O
RWD Works Division, Siwan-1

[Signature]
25/9/25
Executive Engineer
RWD Works Division, Siwan-1


अधियाचन हेतु प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि NEW MR3054 योजनान्तर्गत-

1- पथ/पुल T01 से गौसीहाता टोला तक में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जाँच की गयी है जो निर्धारित मानक/विशिष्टियों के अनुरूप है।

2- अधतन कराये गये कार्य की मापी संबंधित मापी पुस्तिका में दर्ज है जिसका सत्यापन कर लिया गया है।

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा -


सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

of Works Division:-RWD, (W) Division, Siwan-1

of Works Division:-RW/D, (W) Division, Siwan-1																		
No	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lakhs)	Up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in KM)	amount (in Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/S/SIW/ 25/0001	T01 to Gausihata Tola Tak	3140601813	03-01-2024	0.325	24.779	13.35393	0.34255	25/MBD/2024-25 30.01.2025	29.10.2025	-	2604	-	-	0.00000	0.00000	13.29740	PCC Complete

- Signed Hard Copy and Soft copy in excel of recorded IRI is endorse
- Up to data Physical Progress has been uploaded in MIS

[Signature]
25/10/25

D.A.O
Rural Works Department
Works Division Siwan-1

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division Siwan-1

[Signature]
25/10/25

Road name:- T01 to Gausihata tola Tak

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI CATEGORY ROAD
21/09/25	10:45:0	89	0.1	240	0	2400	2478 G
21/09/25	10:45:44	89	0.1	260	10.1	2600	2620 G
21/09/25	10:46:10	89	0.1	270	10.1	2700	2752 G
21/09/25	10:46:36	89	0.1	250	20.2	2500	2567 G
Avg.							2604.25

22/9/25
22/9/25

Latitude	Longitude	Event
26.36341	84.37342	Normal
26.36455	84.37369	Normal
26.36497	84.37382	Normal
26.36560	84.37402	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.873 * X + 410.1$$

$$X = 0$$

$$Y = 410$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

22/9/25
22/9/25

Name of Customer:
 Name of Work:
 Road:
 Lab Job number:
 Date:
 Section No.


Test Date:
 Machine No:
 Start S No:
 Start E No:
 Weather:
 Start Location:
 End Location:
 Road Name:
 Road Type:
 Side:
 UV Range: To Interval
 Dist Range: To mm/km
 Equation:

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File E:\BUMB DATA\2025\T01 to Gausahata tola tak\25021411.Xls. Section No. 89. Egn: $Y = 0 * X^2 + 0.873 * X +$
 Name of Customer: Jitendra Singh. Name of Work/ Road: T01 to Gausahata tola tak. Lab Job number:



Handwritten signature

Handwritten signature